

APPLICATION FORM FOR ASSISTANCE सहायता हेतु आवेदन प्रारूप		(Healthcare) (स्वास्थ्य देखभाल)	 Building block of life.	
APPLICATION No.: आवेदन संख्या:	B/0424/0078	APPLICATION DATE: आवेदन तिथि:	23/4/24	
NAME of APPLICANT: आवेदक का नाम:	Ramanna	AGE-YEARS आयु-वर्ष:	80 M	
FATHER'S/SPOUSE'S NAME: पिता/काकी/माता का नाम:	S/O Rangaappa	PRESENT RESIDENCE ADDRESS: वासान स्थान संदर्भ पता:	dibburu AYSI KENI kanakalle	
Hukar Kurnool	PERMANENT RESIDENCE ADDRESS: स्थाई अवासस्थान पता:	Hukar Kurnool		
OCCUPATION: अवसराय	unemployed	MARRIED (विवाहित) / UNMARRIED (अविवाहित)		
TOTAL ANNUAL INCOME: कुल वार्षिक आय:		(Attach Proof of Income) (आय का साक्ष्य संलग्न)		
PAN No.: स्ट्रीट क्रान्ति संख्या				
ARE YOU AN INCOME TAX ASSESSEE (Tick whichever is applicable): आप आय कर रहे हैं (जो मान्य हो उस पर सही का विश्वास लगायें।)				
Yes / No हाँ / नहीं <input checked="" type="checkbox"/>				
FAMILY DETAILS परिवार विवरण				
Sr. No. क्रम संख्या	Name of Family Member परिवार के सदस्यों का नाम	Age (Years) उम्र (वर्ष)	Gender लिंग	Relation with Applicant आवेदक के जाप सम्बन्ध
①	REUNAma	754	F	MIL
②	RANGANATHA	814	M	SON
BASIS for REQUESTING ASSISTANCE (Tick whichever is applicable) सहायता के लिये विनियोग साधा				
BPL Card (Attach Card/Copy) गांधीजी के नीचे प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र को जाप प्रति संलग्न करें)	EWS Certificate (Attach Certificate Copy) उपर आय वर्गी प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र की जाप प्रति संलग्न करें)	Ration Card (Attach Copy) उपराज्यकांतर (प्रमाण पत्र की जाप प्रति संलग्न करें)	Any Other Basis/Proof अन्य कोई साक्ष्य	
"PURPOSE" for REQUESTING ASSISTANCE: सहायता हेतु किये गये विनाशों का उद्देश्य:				
Sr. No. क्रम संख्या	Medical Reports/Prescriptions Attached अस्पताल स्टॉफ़ से लाई की गई प्रारिदेशन सूची संलग्न			
①	Diagnosis PC catarract LC catarract			
Surgery:- LT CAT & PCOL				
ASSISTANCE BEING AVAILED for SAME "PURPOSE" from OTHER SOURCES इस उद्देश्य के हेतु कोई अन्य सहायता किसी जन्य स्रोत से लिया गया हो?				
Sr. No. क्रम संख्या	NAME of OTHER SOURCE अन्य स्रोत का नाम	AMOUNT of ASSISTANCE BEING AVAILED तीव्र सहायता राशि		
①	DBCS	2000/-		

DECLARATION by APPLICANT: मानेक दुपा जीवन पत्र

- I hereby confirm that all details in this Form are True to the best of my knowledge. Any false statement will render my Application & ongoing assistance, if any, liable for rejection/cancellation.
  - I solemnly confirm that assistance, if received from Koshika Foundation, will be used only for the "purpose", as stated in this Form, for which such assistance was requested by me.
  - I hereby confirm that I have not & will not in future, avail of reimbursement, in part or in full, from any other source/employer/insurance company, of the amount for which this assistance is requested.

1) मैं योग्यता करता हूँ कि इस प्राप्ति में दिये गये सभी विवरण योग्यता वाले रखे गये हैं। यह चोई विवरण यह काम करने अनुसर याच बाजार से यो सही ग्राहणकारी विवरण है।

2) मैं द्वारा यो सहायता ग्राही "कौशिक नारायणन", ने ली जा रही है, उसका उपयोग उसी उद्देश्य की चूंकि के लिये किया जायेगा, जो इस प्राप्ति में भरा गया है।

3) मैं पुष्टि करता हूँ कि यह ग्राहणकारी विवरण द्वारा योग्यता वाले रखने वाली विवरणोंका/वीमा वालीयों से न तो भिन्न है और न ही अधिक में नहीं।

**AGREEMENT by APPLICANT (被申請人 同意)**

- 1) By affixing my signature or thumb impression on this Form, I (Applicant) hereby agree & authorise Koshika Foundation and it's Trustees to user/publish/put-up/reproduce my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, through any medium, including but not limited to verbal, print, electronic, for soliciting donations for Koshika Foundation and/or disseminating information about it's activities/achievements. Such use of my photo & details can be made by Koshika Foundation before or after my treatment or fulfilment of the "purpose" for which assistance is being requested.

2) I (Applicant) further agree that any such use of my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, will not automatically entitle me for receiving or continuing the said assistance. The decision for granting and/or continuing the assistance will rest solely with the Trustees of Koshika Foundation, and their decision in this regard will be final and acceptable to me.

1) इस प्राप्त या आवेदन समझौता को लाप लगाकर, मैं (आवेदक) अपनी सहायता की मुद्रित करता हूँ एवं "कोशिका फार्मासीजन और उसके नामांकन" को अधिकृत करता हूँ कि मेरा नाम, पता, फोटो और ये विवरण इस प्राप्त ये गोपयत है, उसे "कोशिका" एवं नामांकन, या, याचनकार्य द्वारा उद्देश्य से जुड़ी गोपीणीयता और उपलब्धियों के लिये किसी भी इच्छा वाल्यम से प्रभावित करने के लिये अधिकृत है। मेरे प्राप्त या विवरण ये इच्छा की बहाने का बाह मे बनने के लिये "कोशिका फार्मासीजन" व नामांकन अधिकृत है।

2) मैं (आवेदक) इस बात से सहमत हूँ कि मेरा नाम, पता, फोटो और विवरण जो कि सहायता के उद्देश्य से प्राप्त हैं जुड़े यह साधारण का हकड़ा वही बनता। इस सम्बन्ध मे "कोशिका" एवं उसके नामांकन का विवरण अलग और बनाकरते होंगा।

APPLICANT'S SIGNATURE OR LEFT THUMB IMPRESSION:

त्रिपुरा के व्यापार का अंदरी का नियम



AGREEMENT by HOSPITAL ( अस्पताल द्वारा करते )

By affixing hereunder, signature of our Authorised Signatory for recommending this case/patient for financial assistance from Koshika Foundation, we (Hospital) hereby affirm & accept following:

- (Hospital) hereby affirm & accept following:

1) that we neither are presently nor will in future avail of financial assistance from another NGO or any other source, for the same patient/case, as we are requesting to get from Koshika Foundation, to the extent that such assistance is granted by Koshika Foundation. If the requested assistance is not granted by Koshika Foundation, in part or in full, then the Hospital reserves it's right to make up the shortfall from another NGO or any other source. This confirmation essentially states that the Hospital will not avail any duplicate assistance for the same patient/case from any other NGO or any other source.

2) The assistance from Koshika Foundation is only financial in nature. The choice of the treatment/procedure advised/conducted by the Hospital on the patient, is based on the arrangement between the patient & the Hospital, and is in no way influenced by Koshika Foundation. Hence, the Hospital will assume sole & complete responsibility of the treatment & it's outcome & safety of the patient, and Koshika Foundation will have no role or responsibility in the matter.

इसके अधिकारी, उत्तराधीनी को अंग से समाप्तीप्राप्ति को "कैरियर नाइटवैन" से विविध महायात्रा द्वारा नियमित की जाती है, जिसे हम (हास्यरत) नियन्त्रकार से मानने वालीका कहते हैं।

- 1) यह कि न तो यांसन और न ही धूमधर्म में विभिन्न समाजान किये गए सरकारी संस्थान या किसी अन्य संस्था में उक्त एवं प्रभावित लोगों द्वारा बदल होता है। ऐसे कि हमें "कोशिका चाहान्देशन" में विभिन्न विभिन्न उक्त के सम्बन्ध में "कोशिका चाहान्देशन" द्वारा बदल होता है। यह "कोशिका चाहान्देशन" द्वारा समाजान विभिन्न अधिकार/प्रकार हेतु बन्दूर नहीं किया जाता है तो असमाजान किसी अन्य गैर सरकारी संस्था या किसी अन्य समाजान में समाजान से बदला जाता है। इस पूर्ण में सम्पूर्ण कहा जाता है कि असमाजान द्वितीय बदल उक्त संस्थानोंमें हेतु किसी गैर सरकारी संस्था या किसी अन्य संस्था में नहीं संस्थानोंमें।

२. "कांगड़ा कांडन्देशन" से भी तर्क सहायता कोषल वित्तित प्रदूषि की है। ऐसी पर इसकाल द्वारा यीं गई सलाह का किये गये उपचार/उपक्रिया का बुनाम येरी एवं हमलात के दौरान का विषय है और "कांगड़ा कांडन्देशन" द्वारा किये गये प्रकार का कोई दृष्टान्त नहीं है। इसलिये इसकाल में योगी के इत्तज़ा सुधारा और अन्दे जाने की सही क्रियेयाएँ योगी एवं इसकाल की होगी और "कांगड़ा" को कोई परिका के विवरणीय इस घटनाएँ में नहीं होगी।

**RECOMMENDED FOR ACCEPTANCE**

स्थीकरणी के लिए संसाधन

Mr. Lakshmi Pathi N  
Manager Outreach  
Institute for Diabetes & Eye Care  
(Name, Designation & Name of Organization-Signatory  
(A unit of Shrawan Foundation)  
# 16/M, Thirumalai Road, Hospital Block, Anna Nagar, Chennai - 600021

Date of Surgery गांवेश्वर नं. ३०, लालकिंडा <i>23/4/24</i>	<b>Dr. Laxmi Dorennavar</b> MBBS, MS, FPRS, FICO Consultant - Phaco & Refractive KMC No. 90244 <small>Name of Dr. &amp; Regd. No. with Stamp</small>	Mr. Lakshmipathi N. Manager Outreach Institute for Diabetes & Eye Care <small>(Name, Designation &amp; Stamp of Authorised Signatory (A unit of Shri Venkateswara Eye Hospital)</small> # 16/M, Thirumalai Patel Road, Behind Hospital, Kukatpally, Hyderabad, Telangana, India नम्र व ए पर हास्पित अधिकृत अधिकारी
FOR INTERNAL USE of KOSHIKA FOUNDATION		अन्तर्गत उपलब्ध हैं।
SIGNATURE of TRUSTEE 1 नामी हस्ताक्षर । <i>Safayal</i>	SIGNATURE of TRUSTEE 2 नामी हस्ताक्षर । <i>Lic B</i>	